



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1155) पटना, मंगलवार, 6 अक्टूबर 2015

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर 2015

सं0 3/एच0-2/2015सा0प्र0-14696—भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान-सभा का आम निर्वाचन, 2015 के लिए राज्य के विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तिथि पाँच चरणों में, क्रमशः दिनांक 12.10.2015, 16.10.2015, 28.10.2015, 01.11.2015 एवं 05.11.2015 को, निर्धारित की गई है। अतः राज्य सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135(ख) में निहित प्रावधानों तथा एन.आई. एक्ट, 1881 की धारा-25 के स्पष्टीकरण के आलोक में, निम्नांकित रूप में स्तम्भ-2 में अंकित निर्वाचन क्षेत्रों में स्तम्भ-4 में अंकित मतदान की तिथियों को, सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है :-

बिहार विधान-सभा आम निर्वाचन, 2015

चरण का नाम	संबंधित विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों का नाम एवं संख्या	जिला का नाम	मतदान की तिथि
1	2	3	4
प्रथम चरण	131- कल्याणपुर (अ.जा.), 132- वारिसनगर, 133- समस्तीपुर, 134- उजियापुर, 135- मोरवा, 136- सरायरंजन, 137- मोहिउद्दीननगर, 138- विभूतिपुर, 139- रोसड़ा (अ.जा.), 140- हसनपुर	समस्तीपुर	12.10.2015 (सोमवार)
	141- चेरिया बरियापुर, 142- बछवाड़ा, 143- तेघड़ा, 144- मटिहानी, 145- साहेबपुर कमाल, 146- बेगुसराय, 147- बखरी, (अ.जा.)	बेगुसराय	
	148- अलौली(अ.जा.), 149- खगड़िया, 150- बेलदौर, 151- परबत्ता	खगड़िया	
	152- बिहपुर, 153- गोपालपुर, 154- पीरपैली (अ.जा.), 155- कहलगाँव, 156- भागलपुर, 157- सुलतानगंज, 158- नाथनगर,	भागलपुर	
	159- अमरपुर, 160- धौरैया (अ.जा.), 161- बाँका, 162- कटोरिया,(अ.ज.जा.), 163- बेलहर	बाँका	

	164- तारापुर, 165- मुंगेर, 166- जमालपुर,	मुंगेर	
	167- सूर्यगढ़ा, 168- लखीसराय,	लखीसराय	
	169- शेखपुरा, 170- बरबीघा,	शेखपुरा	
	235- रजौली (अ.जा.), 236- हिसुआ, 237- नवादा, 238- गोविन्दपुर, 239- बारसलीगंज,	नवादा	
	240- सिकन्दरा(अ.जा.), 241- जमुई, 242- झांझा, 243- चकाई	जमुई	
द्वितीय चरण	203- रामगढ़, 204- मोहनिया (अ.जा.), 205- भभुआ, 206- चैनपुर,	कैमूर	16.10.2015 (शुक्रवार)
	207- चेनारी(अ.जा.), 208- सासाराम, 209- करगहर, 210- दिनारा, 211- नोखा, 212- डिहरी, 213- काराकाट	रोहतास	
	214- अरवल, 215- कुर्था	अरवल	
	216- जहानाबाद, 217- घोसी, 218- मखदुमपुर (अ.जा.),	जहानाबाद	
	219- गोह, 220- ओबरा, 221- नवीनगर, 222- कुटुम्बा(अ.जा.), 223- औरंगाबाद, 224- रफीगंज	औरंगाबाद	
	225- गुरुआ, 226- शेरघाटी, 227- इमामगंज(अ.जा.) 228- बाराचट्टी (अ.जा.), 229- बोधगया (अ.जा.), 230- गया टाउन, 231- टिकारी, 232- बेलागंज, 233- अतरी, 234- वजीरगंज,	गया	
तृतीय चरण	113- एकमा, 114- मांझी, 115- बनियापुर, 116- तरैया, 117- मढ़ौरा, 118- छपरा, 119- गरखा (अ.जा.), 120- अमनौर, 121- परसा, 122- सोनपुर	सारण	28.10.2015 (बुधवार)
	123- हाजौपुर, 124- लालगंज, 125- वैशाली, 126- महुआ, 127- राजापाकार (अ.जा.), 128- राघोपुर, 129- महनार, 130- पातेपुर (अ.जा.),	वैशाली	
	171- अस्थायी, 172- बिहार शरीफ, 173- राजगीर (अ.जा.), 174- इस्लामपुर, 175- हिलसा, 176- नालंदा, 177- हरनीत	नालन्दा	
	178- मोकामा, 179- बाढ़, 180- बख्तियारपुर, 181- दीघा, 182- बांकीपुर, 183- कुम्हार, 184- पटना साहिब, 185- फतुहा, 186- दानापुर, 187- मनेर, 188- फुलवारी (अ.जा.), 189- मसौढ़ी (अ.जा.), 190- पालीगंज, 191- बिक्रम	पटना	
	192- सदेश, 193- बड़हरा, 194- आरा, 195- अगिआँव (अ.जा.), 196- तरारी, 197- जगदीशपुर, 198- शाहपुर	भोजपुर	
	199- ब्रह्मपुर, 200- बक्सर, 201- डुमराँव, 202- राजपुर (अ.जा.)	बक्सर	
चतुर्थ चरण	1- बाल्मीकिनगर, 2- रामनगर (अ.जा.), 3- नरकटियागंज, 4- बगहा, 5- लौरिया, 6- नौतन, 7- चनपटिया, 8- बेतिया, 9- सिकटा	पश्चिम चम्पारण	01.11.2015 (रविवार)
	10- रक्सौल, 11- सुगौली, 12- नरकटिया, 13- हरसिद्धि(अ.जा.), 14- गोविन्दगंज, 15- केसरिया, 16- कल्याणपुर, 17- पिपरा, 18- मधुबन, 19- मोतिहारी, 20- विरैया, 21- ढाका	पूर्वी चम्पारण	
	22- शिवहर	शिवहर	
	23- रीगा, 24- बथनाहा (अ.जा.), 25- परिहार, 26- सुरसंड, 27- बाजपट्टी, 28- सीतामढ़ी 29- रून्नीसैदपुर, 30- बेलसंड	सीतामढ़ी	
	88- गायघाट, 89- औराई, 90- मीनापुर, 91- बोचहॉ (अ.जा.), 92- सकरा(अ.जा.), 93- कुढ़नी, 94- मुजफ्फरपुर, 95- काँटी, 96- बरुराज, 97- पारु, 98- साहेबगंज	मुजफ्फरपुर	
	99- बैकुण्ठपुर, 100- बरौली, 101- गोपालगंज, 102- कुचायकोट, 103- भोरे (अ.जा.), 104- हथुआ,	गोपालगंज	
	105- सिवान, 106- जीरादेई, 107- दरौली (अ.जा.), 108- रघुनाथपुर, 109- दरौदा, 110- बड़हरिया, 111- गोरेयाकोठी, 112- महाराजगंज	सिवान	

पंचम चरण	31- हरलाखी, 32- बेनीपट्टी, 33- खजौली, 34- बाबूबरही, 35- बिस्फी, 36- मधुबनी, 37- राजनगर (अ.जा.), 38- झंझारपुर, 39- फूलपरास, 40- लौकहा	मधुबनी	05.11.2015 (गुरुवार)
	41- निर्मली, 42- पिपरा, 43- सुपौल, 44- त्रिवेणीगंज (अ.जा.), 45- छातापुर	सुपौल	
	46- नरपतगंज, 47- रानीगंज (अ.जा.), 48- फारबिसगंज, 49- अररिया, 50- जोकीहाट, 51-सिकटी	अररिया	
	52- बहादुरगंज, 53- ठाकुरगंज, 54- किशनगंज, 55- कोचाधामन,	किशनगंज	
	56- अमौर, 57- बायसी, 58- कसबा, 59- बनमनखी (अ.जा.), 60- रूपौली, 61- धमदाहा, 62- पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	
	63- कटिहार, 64- कदवा, 65- बलरामपुर, 66- प्राणपुर, 67- मनिहारी, (अ.ज.जा.), 68- बरारी, 69- कोढा (अ.जा.),	कटिहार	
	70- आलमनगर, 71- बिहारीगंज, 72- सिहेश्वर(अ.जा.), 73- मधेपुरा	मधेपुरा	
	74- सोनबरसा (अ.जा.), 75- सहरसा, 76- सिमरी बख्तियारपुर 77- महिषी	सहरसा	
	78- कुशेश्वर स्थान(अ.जा.), 79- गौड़ाबौराम, 80- बेनीपुर, 81- अलीनगर, 82- दरभंगा ग्रामीण, 83- दरभंगा, 84- हायाघाट, 85- बहादुरपुर, 86- केवटी, 87- जाले	दरभंगा	

तदनुसार उक्त मतदान की तिथियों को मात्र संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में ही सवैतनिक अवकाश रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1155-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>